

Rashtriya Sahara 29-4-2022

केन्द्रीय मंत्री आईसीएफआरई की बैठक में हुए शामिल

■ सहारा न्यूज व्यूरो
देहरादून।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसाइटी देहरादून की युहस्पतिवार को आयोजित 28वीं वार्षिक बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिक्कृत की। यह आईसीएफआरई सोसाइटी के अध्यक्ष और महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी हैं। इस मौके पर मंत्री ने एपी सिंह एफआरआई देहरादून की ओर से लिखित पुस्तक उत्तराखण्ड में बटर फ्लाई-फरिस्ट टाइप एसोसिएशन का भी विमोचन किया।

सोसायटी साल में एक बार अपनी बैठक में समाज की घटक इकाइयों की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करती है। इसके साथ ही ऐसे नीति निर्देश देती है, जो वे बोर्ड ऑफ गर्वनेंस, इकाइयों और सोसायटी की संविधान

■ भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसाइटी की 28 वीं आम सभा में साल भर के कार्यों का बताया

■ एसपी सिंह एफआरआई की लिखित पुस्तक उत्तराखण्ड में बटर फ्लाई फरिस्ट टाइप एसोसिएशन का किया विमोचन

इकाइयों को उचित समझे। आईसीएफआरई की 28वीं वार्षिक आम बैठक बोर्ड स्म में सुबह साढ़े नौ बजे आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार ने की। वे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। भूपेंद्र यादव और अन्य गणमान्य



अतिथियों का अरुण सिंह रावत महानिदेशक आईसीएफआरआई और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसायटी के सदस्य सचिव ने स्वागत किया। बैठक में सोसाइटी के सदस्यों की जानकारी के लिए बोर्ड ऑफ गर्वनेंस द्वारा तैयार गई सोसाइटी के कामकाज और इसकी घटक इकाइयों द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और साथ में ऑडिट किए गए खातों और ऑडिटर की रिपोर्ट को सोसाइटी के सामने रखा गया।

बैठक में सोसायटी के समक्ष समिति

द्वारा रिपोर्ट को रखने के बाद, सदस्य सचिव रिपोर्ट को संसद के सदनों के पटल पर रखने के लिए भारत सरकार को अर्पित किया जाता है। इसके बाद सीपी गोयल डीजीएफ और एफएस, एमओएफसीसी व अश्विनी कुमार चौबे राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री ने भी सभा को संबोधित किया।

इसके उपरान्त एएस रावत महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने परिषद की प्रमुख पहल और उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी। इससे पूर्व एजेंडा के अनुसार 27वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यक्रम की पुष्टि की गई। तत्पश्चात वर्ष 2020-21 के लिए आईसीएफआरई की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम में वर्ष के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते के साथ प्रस्तुत की गई थी।

वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान वानिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर चर्चा करता है। संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए दोनों दस्तावेजों पर चर्चा की गई और फिर सोसायटी द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।

बैठक में सीपी गोयल आईएफएस डीजीएफ, विभिन्न आईसीएफआरई संस्थानों के निदेशक, असम के एनओएफएस, प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, हरियाणा, अन्य वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, आईसीएफआरई सोसाइटी के अन्य सदस्य एवं मंत्रालय और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

Dainik Jagran

29-4-2022

25 साल के अनुसंधान का खाका तैयार करे आइसीएफआरई

जागरण संवाददाता, देहरादून: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से लेकर वानिकी अनुसंधान के तमाम पहलुओं को हल करने की अहम जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) पर है। इसकी 28वीं वार्षिक बैठक में यह अपेक्षा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निर्देश दिए कि संस्थान 25 साल का खाका तैयार करे।

गुरुवार को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि आइसीएफआरई को विभिन्न विषयों के अनुसंधान को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने वनों पर निर्भर विभिन्न जनजातियों की आर्थिकी में सुधार करने की दिशा में भी काम करने पर बल दिया। वहीं, परिषद के महानिदेशक एएस रावत ने

आइजीएनएफए में स्वीमिंग पूल का उद्घाटन

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) में पं. दीन दयाल उपाध्यक्ष आल वेदर स्वीमिंग पूल का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक/आइसीएफआरई महानिदेशक एएस रावत ने बताया कि स्वीमिंग पूल प्रशिक्षु आइएफएस अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखी और इस पर चर्चा भी कराई गई। इसके अलावा महानिदेशक ने बताया कि वर्ष 2020-21 में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए गए हैं।

Amar Ujala
29-4-2022

आईसीएफआरई की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी


माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) सोसायटी की 28वीं वार्षिक बैठक केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से तैयार गई सोसाइटी के कामकाज और इसकी घटक इकाइयों के कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट को रखा गया। चर्चा के बाद रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।

बृहस्पतिवार को आईसीएफआरई के महानिदेशक एवं शिक्षा परिषद सोसायटी के सदस्य सचिव अरुण सिंह रावत ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, महानिदेशक वन सीपी गोयल ने संबोधित किया।

अरुण सिंह रावत ने उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी। एजेंडा के अनुसार 27वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके बाद वर्ष 2020-21 के लिए आईसीएफआरई की वार्षिक रिपोर्ट

केंद्रीय वन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन, पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा



प्रस्तुत की गई। इसमें वानिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों का विवरण है।

बैठक में वन मंत्री ने एपी सिंह की पुस्तक 'उत्तराखंड में बटरफ्लाई-फॉरेस्ट टाइप एसोसिएशन' का विमोचन किया। इस दौरान महानिदेशक वन सीपी गोयल, उप महानिदेशक आरके डोगरा आदि मौजूद थे।

The Pioneer

29-4-2022

Yadav calls for deliberation on forestry related models for next 25 years

PNS ■ DEHRADUN



The Union minister of Environment, Forests and Climate Change, Bhupendra Yadav chaired the annual general meeting of the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) Society here on Thursday. Speaking on the occasion, the minister who is also president of the society said that a day long deliberation session should be held to discuss the models which the institution can provide for the next 25 years for forestry, research, agro forestry and other related spheres. Union minister of State, MoEFCC, Ashwini Kumar Choubey and the director general of forests and special secretary CP Goyal also addressed the gathering on the occasion. The ICFRE director general Arun Singh Rawat made a presentation on salient initiatives and achievements of the council.

The annual report of ICFRE for the year 2020-21 was presented along with annual audited account of the year in the AGM. The annual report for the year 2020-21 is a brief account of research, education and extension activities performed in various sectors of forestry, environment and climate change during the year. It discusses projects undertaken by ICFRE institutes. Both the documents were discussed and then unanimously adopted by the society for placing the same on the tables of both the houses of the Parliament.

Shah Times

29-4-2022

आईसीएफआरई की 28वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित

■ केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने की बैठक अध्यक्षता, कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद



शाह टाइम्स संवाददाता देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आईसीएफआरई सोसायटी के अध्यक्ष हैं और महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी हैं।

केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार की अध्यक्षता में सामान्य निकाय आईसीएफआरई का सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसके सदस्यों में विभिन्न राज्य सरकारों, शैक्षणिक

संस्थानों और वैज्ञानिक संगठनों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। सोसायटी वर्ष में एक बार अपनी बैठक में समाज की घटक इकाइयों की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करती है और ऐसे नीति निर्देश देती है जो वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इकाइयों और सोसायटी की संविधान इकाइयों को उचित समझे।

सोसाइटी के सदस्यों की जानकारी के लिए 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' द्वारा तैयार गई सोसाइटी के कामकाज और इसकी घटक इकाइयों द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और साथ में ऑडिट किए गए खातों और ऑडिटर की रिपोर्ट को सोसाइटी के सामने रखा गया। अपनी वार्षिक

आम बैठक में सोसायटी के समक्ष समिति ने रिपोर्ट को अपनाने के बाद, सदस्य सचिव रिपोर्ट को संसद के सदनों के पटल पर रखने के लिए भारत सरकार को अग्रपिहित किया जाता है। आईसीएफआरई की 28 वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार को बोर्ड रूम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भूपेन्द्र यादव, मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने की, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। भूपेन्द्र यादव और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत अरुण सिंह रावत, महा. निदेशक, आईसीएफआरई और भारतीय वानिकी अनुसंधान और

शिक्षा परिषद सोसायटी के सदस्य सचिव ने किया। इसके बाद सीपी. गोयल डीजीएफ और एसएस, एमओएफसीसी एवं अश्विनी कुमार चौबे, राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री ने भी सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सभा को संबोधित किया। इसके बाद ए.एस. रावत, महा. निदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने परिषद की प्रमुख पहल और उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी। बैठक में सीपी गोयल, आईएफएस, डीजीएफ और एसएस और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के बीओजी के उपाध्यक्ष विभिन्न आईसीएफआरई संस्थानों के निदेशक, असम के एचओएफएफ, प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, हरियाणा, अन्य वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, आईसीएफआरई सोसाइटी के अन्य सम्मानित सदस्य एवं मंत्रालय और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

Uttar Bharat Live
29-4-2022

भारतीय वानिकी अनुसंधान की वार्षिक बैठक हुई संपन्न

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो

uttarbharatlive.com

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त परिषद है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आईसीएफआरई सोसायटी के अध्यक्ष हैं और महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी हैं। मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार की अध्यक्षता में सामान्य निकाय आईसीएफआरई का सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसके सदस्यों में विभिन्न राज्य सरकारों शैक्षणिक संस्थानों और वैज्ञानिक संगठनों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। सोसायटी वर्ष में एक बार अपनी बैठक में समाज की घटक इकाइयों की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करती है और ऐसे नीति निर्देश देती है जो वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इकाइयों और सोसायटी की सविधान इकाइयों को उचित समझे। सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के लिए बोर्ड ऑफ



» पर्यावरण वन मंत्री ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

गवर्नर्स द्वारा तैयार गई सोसायटी के कामकाज और इसकी घटक इकाइयों द्वारा किए गए सभी कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और साथ में ऑडिट किए गए खातों और ऑडिटर की रिपोर्ट को सोसायटी के सामने रखा गया। तदनुसार आईसीएफआरई की 28 वीं वार्षिक आम बैठक वीरवार को बोर्ड रूम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार ने की जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसायटी के

अध्यक्ष भी हैं। यादव और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत अरुण सिंह रावत, महानिदेशक आईसीएफआरई और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद सोसायटी के सदस्य सचिव ने किया। इसके बाद सीपीगोयल डीजीएफ और एसएसए एमओएफ सीसी एवं अश्विनी कुमार चौबे राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री ने भी सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभा को संबोधित किया। इसके उपरांत एस रावत महा निदेशक परिषद ने परिषद की प्रमुख पहल और उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी।